

# Num

## Chapter 10

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

וַיְדַבֵּר אֶל-מֹשֶׁה לְאָמָר: 1  
और-बोला से- मूसा कहते-हुए  
H1696 H3068 H0413 H4872 H0559

यहोवा ने मूसा से कहा:

עֲשֵׂה לָךְ בִּגְדֵי שָׂרָף מִכָּסֵּף מִכָּסֵּף תַּרְחִיבֵם דְּבַר-אֶתְּךָ וְהָיִיתָ לְמִקְרָא 2  
बनाने-को अपने-लिए दो तुरहियां पीटे-हुए चाँदी-की तुलसीयां बना उन्हेँ और-होंगी और-होंगी बुलाने-को  
H4744 H1961 H0853 H4749 H3701 H2689 H8147

וְלִמְסַע אֶת-הַמַּחֲנֹת: 3  
और-कूच-कराने-को छानियों-को को- मंडली-को  
H4550 H0853 H4264 H5712

“बिगुल बनाने के लिये चाँदी का उपयोग करो। चाँदी का पतरा बना कर उससे दो बिगुल बनाओ। ये बिगुल लोगों को एक साथ बुलाने और यह बताने के लिए होंगे कि डेरे को कब चलाना है।

וַתִּקְעוּ אֶת-בְּהֵמַת יִשְׂרָאֵל וְנִוְעְדוּ אֵלַי מִלְּפָנֵי אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל 3  
और-बजाएं उनमें तो-इकट्टे-होंगे तेरे-पास सारी- मंडली पास- द्वार तम्बू मिलाप-का  
H8628 H3259 H0413 H3605 H5712 H0413 H6607 H0168 H4150

जब तुम इन दोनों बिगुलों को बजाओगे, तो सभी लोगों को मिलापवाले तम्बू के सामने तुम्हारे आगे इकट्टा हो जाना चाहिए।

וְאִם-בָּאֵת אֶת-יְהוָה וְנִוְעְדוּ אֵלַי מִלְּפָנֵי אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל 4  
और-यदि- एक-से बजाएं तो-इकट्टे-होंगे तेरे-पास प्रथान सरदार हज़ारों-के इस्राएल-के  
H0259 H8628 H3259 H0413 H0505 H3478

यदि तुम केवल एक बिगुल बजाते हो, तो नेता (इस्राएल के बारह परिवारों के मुखिया) तुम्हारे सामने इकट्टे होंगे।

וַתִּקְעוּ אֶת-בְּהֵמַת יִשְׂרָאֵל וְנִוְעְדוּ אֵלַי מִלְּפָנֵי אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל 5  
और-बजाओ ललकार तो-कूच-करेंगे छानियां डेरा-डाले-हुए पूरब-में  
H8628 H8643 H5265 H4264 H2583

“जब तुम बिगुल को पहली बार कम बजाओ, तब पूर्व में डेरा लगाए हुए परिवारों के समूहों को चलना आरम्भ कर देना चाहिए।

וַתִּקְעוּ אֶת-בְּהֵמַת יִשְׂרָאֵל וְנִוְעְדוּ אֵלַי מִלְּפָנֵי אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל 6  
और-बजाओ ललकार दूसरी-बार ललकार दक्षिण-में डेरा-डाले-हुए छानियां तो-कूच-करेंगे ललकार और-बजाओ  
H8628 H8643 H8145 H8643 H5265 H4264 H2583 H8486 H8643 H8628

לְמַסְעֵיהֶם: 7  
उनकी-यात्राओं-के-लिए  
H4550

जब तुम बिगुल को दूसरी बार कम बजाओगे तो दक्षिण के डेरे को चलना आरम्भ कर देना चाहिए। बिगुल की ध्वनि यह घोषणा करेगी कि लोग चलें।

וּבְהַקְהִיל אֶת-קְהֵל יִשְׂרָאֵל וְנִוְעְדוּ אֵלַי מִלְּפָנֵי אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל 7  
और-जब-इकट्टे-करना को- सभा-को ललकारो और-नहीं बजाओ  
H6950 H0853 H6951 H8628 H3808 H7321

जब तुम सभी लोगों को इकट्टा करना चाहते हो तो बिगुल को दूसरे ढंग से लम्बी स्थिर ध्वनि निकालते हुए बजाओ।

8  
 וּבְנֵי אֶהְרֹן הַכֹּהֲנִים יִתְקַעוּ בַּחֲצֹצְרוֹת וְהָיוּ לְכֶם לְחֻקַּת עֹלָם  
 और-बेटे हासून-के आह्वान-ने याजकों-ने बजाएँ बह्छत्रों-में और-होंगी तुम्हारे-लिए लक्ष्म तुम्हारे-लिए सदा

[H5769](#)

[H2708](#)

[H1961](#)

[H2689](#)

[H8628](#)

[H3548](#)

[H0175](#)

לְדֹתֵיכֶם:  
 तुम्हारी-पीढ़ियों-में  
[H1755](#)

केवल हासून के याजक पुत्रों को बिगुल बजाना चाहिए। यह तुम लोगों के लिए नियम है जो भविष्य में माना जाता रहेगा।

9  
 וְכִי-תָבֵאוּ מִלְחָמָה בְּאֶרְצְכֶם עַל-שָׁרְיָה שָׁרְיָה וְהָרַעְתֶּם בַּחֲצֹצְרוֹת  
 और-यदि-जाओ युद्ध-को तुम्हारे-देश-में विरुद्ध-शत्रु-के शत्रु सताने-वाले तो-ललकारी तुमको तुम्हारे-लिए

[H2689](#)

[H7321](#)

[H0853](#)

[H0776](#)

[H4421](#)

[H0935](#)

וְנִזְכַּרְתֶּם לְפָנַי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם וְנוֹשַׁעְתֶּם מֵאִיְבֹכֶם:  
 तो-स्मरण-किए-जाओगे सामने यहोवा-के तुम्हारे-परमेश्वर-के और-बचाए-जाओगे अपने-शत्रुओं-से

[H0341](#)

[H3467](#)

[H0430](#)

[H3068](#)

[H6440](#)

[H2142](#)

“यदि तुम अपने देश में किसी शत्रु से लड़ रहे हो तो, तुम उनके विरुद्ध जाने के पहले बिगुल को जोर से बजाओ। तब तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी बात सुनेगा, और वह तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं से बचाएगा।”

10  
 וּבְיוֹם שְׂמֵחַתְכֶם וּבְיוֹם צִדְקָתְכֶם וּבְיוֹם חַגְדְּשְׁכֶם וּבְיוֹם חַגְדְּשְׁכֶם  
 और-जिस-दिन तुम्हारी-खुशी-के तुम्हारे-उत्सवों-में और-नए-चाँद-के और-तुम्हारे-महीनों-में और-तुम्हारे-महीनों-में

[H2689](#)

[H8628](#)

[H2320](#)

[H4150](#)

[H8057](#)

[H3117](#)

עַל-עֲלֹתֵיכֶם וְעַל-זְבָחֵי בְּלִידָנוֹת וְעַל-זְבָחֵי בְּלִידָנוֹת  
 पर तुम्हारी-होमबलियों पर और-पर बलिदानों और-पर बलिदानों-के

[H6440](#)

[H2146](#)

[H1961](#)

[H8002](#)

[H2077](#)

אֱלֹהֵיכֶם אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם:  
 तुम्हारे-परमेश्वर-के मैं यहोवा तुम्हारे-परमेश्वर-हूँ

[H0430](#)

[H3068](#)

[H0589](#)

[H0430](#)

अपनी विशेष प्रसन्नता के समय में भी तुम्हें अपना बिगुल बजाना चाहिए। अपने विशेष पवित्र दिनों और नये चाँद की दावतों में बिगुल बजाओ और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हें याद करने का यह विशेष तरीका होगा। मैं तुम्हें यह करने का आदेश देता हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ।”

11  
 וְהָיוּ בְּשָׁנָה הַשְּׁנִית בְּחֹדֶשׁ הַשְּׁנִי בְּעֶשְׂרִים בְּחֹדֶשׁ הַשְּׁנִי מֵעַל מִשְׁכַּן הָעֵדוּת:  
 और-हुआ और-हुआ

[H5715](#)

[H4908](#)

[H6051](#)

[H5927](#)

[H2320](#)

[H6242](#)

[H8145](#)

[H2320](#)

[H8145](#)

[H8141](#)

[H1961](#)

दूसरे वर्ष के दूसरे महीने में इस्राएल के लोगों द्वारा मिस्र छोड़ने के बीसवें दिन के बाद साक्षीपत्र के तम्बू के ऊपर से बादल उठा।

12  
 וַיִּסְעוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל לְמִסְעֵיהֶם מִבְּרֶגֶל סִינַי וַיִּשְׁכְּנוּ בְּמִדְבַּר  
 और-कूच-किए और-कूच-किए और-कूच-किए और-कूच-किए और-कूच-किए और-कूच-किए और-कूच-किए और-कूच-किए और-कूच-किए और-कूच-किए

[H6051](#)

[H7931](#)

[H5514](#)

[H4550](#)

[H3478](#)

[H5265](#)

פָּאָרָן:  
 पारान  
[H6290](#)

इसलिए इस्राएल के सभी लोगों ने सीनै की मरुभूमि से यात्रा करनी आरम्भ की वे एक स्थान से दुसरे स्थान को यात्रा तब तक करते रहे जब तक बादल पारान की मरुभूमि में नहीं रूका।

13  
 וַיִּסְעוּ בְּרֵאשִׁיטָה עַל-פִּי יְהוָה בְּיַד-מוֹשֶׁה:  
 और-कूच-किए और-कूच-किए और-कूच-किए और-कूच-किए और-कूच-किए और-कूच-किए और-कूच-किए और-कूच-किए और-कूच-किए और-कूच-किए

[H4872](#)

[H3027](#)

[H3068](#)

[H6310](#)

[H7223](#)

[H5265](#)

यह पहला समय था कि लोगों ने अपने डेरों को वैसे चलाया जैसा यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था।

14 זָבָא וְעַל- לְזָבָאֲתָם וְיְהוּדָה בְּנֵי- מַחֲנֶה הָגֵל וְיִסְעַ וְעַל- זָבָא  
 उसकी-सेना और-पर- उनकी-सेनाओं-के-अनुसार पहले-में यहूदा बेटों-के छावनी-की झंडा-ने और-कूच-किया  
 H7223 H3063 H4264 H1714 H5265

עַמִּינָדָב : בֶּן- נַחֲשׁוֹן  
 अम्मीनादाब-का बेटा- नहशोन  
 H5992 H5177

यहूदा के डेरे से तीन दल पहले गए। उन्होंने अपने झण्डे के साथ यात्रा की। पहला दल यहूदा के परिवार समूह का था। अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन उस दल का नेता था।

15 וְעַל- זָבָא מִטָּה בְּנֵי יִשָּׁשְׁכָר נִתְנָאֵל בֶּן- צוּעָר :  
 और-पर- सेना गोत्र-की बेटों-के इस्साकार नतनएल सूआर-का बेटा-  
 H4294 H3485 H5417 H6686

उसके ठीक बाद इस्साकार का परिवार समूह आया। सूआर का पुत्र नतनेल उस दल का नेता था।

16 וְעַל- זָבָא מִטָּה בְּנֵי זְבוּלֹן אֵלִיָּאָב בֶּן- חֶלְוִין :  
 और-पर- सेना गोत्र-की बेटों-के जबूलून एलीयाब हेलोन-का बेटा-  
 H4294 H2074 H0446 H2497

और तब जबूलून का परिवार समूह आया। हेलोन का पुत्र एलीआब उस दल का नेता था।

17 וְיְהוּרָד הַמְּשָׁכֵן וְנִסְעוּ בְּנֵי- גֵרְשׁוֹן וּבְנֵי מְרָרִי נִשְׂאִי הַמְּשָׁכֵן : ס  
 और-उतारा-गया तम्बू और-कूच-किए बेटे- गेरशोन और-बेटे मरारी उठाने-वाले तम्बू-को  
 H3381 H4908 H5265 H1648 H4847 H5375 H4908

तब मिलापवाले तम्बू उतारे गए और गेरशोन तथा मरारी के लोग पवित्र तम्बू को लेकर चले। इसलिए इन परिवारों के लोग पंक्ति में ठीक बाद में थे।

18 וְנִסְעוּ הָגֵל מַחֲנֶה רְאוּבֵן לְזָבָאֲתָם וְעַל- זָבָא אֵלִיָּזָר בֶּן-  
 और-कूच-किया झंडा-ने छावनी-की रऊबेन उनकी-सेनाओं-के-अनुसार और-पर- एलीसूर बेटा-  
 H5265 H1714 H4264 H7205 H0468

שְׁדֵיאוּר :  
 शदेऊर-का  
 H7707

तब रूबेन के डेरे के तीन दल आए। उन्होंने अपने झण्डे के साथ यात्रा की। पहला दल रूबेन परिवार समूह का था। शदेऊर का पुत्र एलीआज़र इस दल का नेता था।

19 וְעַל- זָבָא מִטָּה בְּנֵי שְׁמֹעוֹן שְׁלֹמִיאֵל בֶּן- שְׁדֵי צוּרִי  
 और-पर- सेना गोत्र-की बेटों-के शिमोन शलुमीएल सूरीशदै-का बेटा-  
 H4294 H8095 H8017 H6701

इसके ठीक बाद शिमोन का परिवार समूह आया। सूरीशदै का पुत्र शलुमीएल उस दल का नेता था।

20 וְעַל- זָבָא מִטָּה בְּנֵי- גָּד אֵלִיָּסָף בֶּן- דְּעוּאֵל :  
 और-पर- सेना गोत्र-की बेटों-के गाद एल्यासाफ देऊएल-का बेटा-  
 H4294 H1410 H0460 H1845

और तब गाद का परिवार समूह आया। दूएल का पुत्र एल्यासाप उस दल का नेता था।

21 וְנִסְעוּ הַקְּהָתִים נִשְׂאִי הַמְּקַדָּשׁ וְהַקִּימוּ אֶת- הַמְּשָׁכֵן עַד- בָּאָם :  
 और-कूच-किए कहाती उठाने-वाले पवित्र-स्थान-को और-खड़ा-किया को- तम्बू उनके-आने तक-  
 H5265 H6956 H5375 H4720 H0853 H4908 H5704 H0935

ס

तब कहात परिवार के लोग आए। वे उन पवित्र चीज़ों को ले जा रहे थे जो पवित्र तम्बू में थीं। ये लोग इस समय इसलिए आए ताकि इन लोगों के पहुँचने के पहले पवित्र तम्बू लगा दिया जाए और तैयार कर दिया जाए।

22 **וְנָסַע** **וְעָלָה** **מִחֲנֵה** **בְּנֵי** **אֶפְרַיִם** **לְצַבְאוֹתָם** **וְעָלָה** **צָבָאוֹ** **אֶל־יִשְׁמָעֵל**  
 और-कूच-किया **इंडा-ने** **छावनी-की** **बेटों-के** **एप्रैम** **उनकी-सेनाओं-के-अनुसार** **और-पर-** **उसकी-सेना** **एलीशामा**  
[H5265](#) [H1714](#) [H4264](#) [H0669](#) [H0476](#)

**בֶּן** **עַמִּיהוּד**  
**बेटा-** **अम्मीहूद-का**  
[H5989](#)

इसके ठीक बाद एप्रैम के डेरे के तीन दल आए। उन्होंने अपने झण्डे के साथ यात्रा की। पहला दल एप्रैम के परिवार समूह का था। अम्मीहूद का पुत्र एलीशामा उस दल का नेता था।

23 **וְעָלָה** **צָבָא** **מִטָּה** **בְּנֵי** **מְנַשֶׁה** **גַּמְלִיאֵל** **בֶּן** **פְּדָה** **צֹר**  
 और-पर- **सेना** **गोत्र-की** **बेटों-के** **मनश्शे** **गमलीएल** **बेटा-** **पदा-** **सूर-का**  
[H4294](#) [H4519](#) [H1583](#) [H6301](#) [H6301](#)

ठीक उसके बाद मनश्शे का परिवार समूह आया। पदासूर का पुत्र गमलीएल उस दल का नेता था।

24 **וְעָלָה** **צָבָא** **מִטָּה** **בְּנֵי** **בִּנְיָמִין** **אֲבִידָן** **בֶּן** **גִּידְוֹנִי** **ס**  
 और-पर- **सेना** **गोत्र-की** **बेटों-के** **बिन्यामीन** **अबीदान** **बेटा-** **गिदोनी-का** **—**  
[H4294](#) [H1144](#) [H0027](#) [H1441](#)

तब बिन्यामीन का परिवार समूह आया। गिदोनी का पुत्र अबीदान उस दल का नेता था।

25 **וְנָסַע** **וְעָלָה** **מִחֲנֵה** **בְּנֵי** **דָּן** **מֵאֲסָף** **לְכָל** **הַמַּחֲנֵה**  
 और-कूच-किया **इंडा-ने** **छावनी-की** **बेटों-के** **दान** **इकट्टा-करने-वाला** **सब-के-लिए-** **छावनियों-का**  
[H5265](#) [H1714](#) [H4264](#) [H1835](#) [H0622](#) [H3605](#) [H4264](#)  
**לְצַבְאוֹתָם** **וְעָלָה** **צָבָאוֹ** **אֲחִיעֶזֶר** **בֶּן** **עַמִּישַׁדָּי**  
**उनकी-सेनाओं-के-अनुसार** **और-पर-** **उसकी-सेना** **अहीएजेर** **बेटा-** **अम्मीशद्वै-का**  
[H5996](#) [H0295](#)

पंक्ति में आखिरी तीन परिवार समूह अन्य सभी परिवार समूहों के लिए पृष्ठ रक्षक थे। ये दल दान के डेरे में से थे। उन्होंने अपने झण्डे के साथ यात्रा की। पहला दल दान के परिवार समूह का था। अम्मीशद्वै का पुत्र अहीएजेर उस दल का नेता था।

26 **וְעָלָה** **צָבָא** **מִטָּה** **בְּנֵי** **אֲשֶׁר** **פְּגִיעַל** **בֶּן** **עֹכְרָן**  
 और-पर- **सेना** **गोत्र-की** **बेटों-के** **आशेर** **पगीएल** **बेटा-** **ओक्रान-का**  
[H4294](#) [H0836](#) [H6295](#) [H5918](#)

उसके ठीक बाद आशेर का परिवार समूह आया। ओक्रान का पुत्र पजीएल उस दल का नेता था।

27 **וְעָלָה** **צָבָא** **מִטָּה** **בְּנֵי** **נַפְתָּלִי** **אֲחִירָע** **בֶּן** **עִינָן**  
 और-पर- **सेना** **गोत्र-की** **बेटों-के** **नफ्ताली** **अहीरा** **बेटा-** **एनान-का**  
[H4294](#) [H5321](#) [H0299](#) [H5881](#)

तब नफ्ताली का परिवार समूह आया। एनान का पुत्र अहीरा उस दल का नेता था।

28 **אֶלֶּה** **מִסְעֵי** **בְּנֵי** **יִשְׂרָאֵל** **לְצַבְאוֹתָם** **וַיִּסְעוּ**  
**ये** **यात्राएं** **बेटों-की** **इस्राएल-के** **उनकी-सेनाओं-के-अनुसार** **और-कूच-किए**  
[H0428](#) [H4550](#) [H3478](#) [H5265](#)

जब इस्राएल के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते थे तब उनका यही ढंग था।

אֶל-	אֲנַחְנוּ	וְנִסְעִים	מֹשֶׁה	חָתָן	הַמִּדְיָנִי	רְעוּאֵל	בֶּן-	לְהוֹבָב	מֹשֶׁה	וַיֹּאמֶר	
पास-	हम	कूच-कर-रहे-हैं	मूसा-के	ससुर	मिद्यानी	रईल-के	बेटे-	से-होबाब	मूसा	और-बोला	
<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0587</a>	<a href="#">H5265</a>	<a href="#">H4872</a>		<a href="#">H4084</a>	<a href="#">H7467</a>		<a href="#">H2246</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H0559</a>	
כִּי-	לָךְ	וְהַטַּבְּנוּ	אֲתָנוּ	לָכֵה	לָכֵם	אֲתָן	אֲתוּ	יְהוָה	אָמַר	אֲשֶׁר	הַמָּקוֹם
क्योंकि-	तेरे-साथ	और-भलाई-करेंगे	हमारे-साथ	चल	तुम्हें	दूंगा	उसे	यहोवा-ने	कहा	जिसे	स्थान-के
		<a href="#">H3190</a>	<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H3212</a>		<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0559</a>		<a href="#">H4725</a>
						יִשְׂרָאֵל:	עַל-	טוֹב	דִּבֶּר-	יְהוָה	
						इसाएल	पर-	भलाई	बोला-	यहोवा-ने	
						<a href="#">H3478</a>			<a href="#">H1696</a>	<a href="#">H3068</a>	

रूएल का पुत्र होबाब मिद्यानी था। (रूएल मूसा का ससुर था।) मूसा ने होबाब से कहा, “हम लोग उस देश की यात्रा कर रहे हैं जिसे परमेस्वर ने हम लोगों को देने का वचन दिया है। इसलिए हम लोगों के साथ आओ, हम लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। परमेस्वर ने इसाएल के लोगों को अच्छी चीज़ें देने का वचन दिया है।”

אֶל:	מוֹלְדֵי	וְאֶל-	אֶרֶצִי	אֶל-	אִם-	כִּי	אֶלְךָ	לֹא	אֵלָיו	וַיֹּאמֶר
जाऊंगा	अपने-जन्मस्थान	और-पास-	अपने-देश	पास-	बल्कि-	क्योंकि	जाऊंगा	नहीं	उससे	और-बोला
<a href="#">H3212</a>	<a href="#">H4138</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H0413</a>			<a href="#">H3212</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0559</a>

किन्तु होबाब ले उत्तर दिया, “नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मैं अपने देश और अपने लोगों के पास लौटूंगा।”

בְּמִדְבָּר	חַנְתָּנוּ	יָדַעַתָּ	כֵּן	עַל-	וְכִי	אֲתָנוּ	תַּעֲזֹב	נָא	אֶל-	וַיֹּאמֶר
जंगल-में	हमारा-डेरा-डालना	जानता-है	इसलिए	पर-	क्योंकि	हमें	छोड़	कृपया	ना-	और-बोला
	<a href="#">H2583</a>	<a href="#">H3045</a>				<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H4994</a>	<a href="#">H0408</a>	<a href="#">H0559</a>
							לְעֵינַיִם:	לָנוּ	וְהָיִיתָ	
							आंखों-के-लिए	हमारे-लिए	और-होगा	
									<a href="#">H1961</a>	

तब मूसा ने कहा, “हमें छोड़ो मत। तुम रेगिस्तान के बारे में हम लोगों से अधिक जानते हो। तुम हमारे पथ पदर्शक हो सकते हो।

עִמָּנוּ	יְהוָה	יִיטִיב	אֲשֶׁר	הַהוּא	הַטּוֹב	וְהָיִיתָ	עִמָּנוּ	תִּלְךָ	כִּי-	וְהָיִיתָ
हमारे-साथ	यहोवा	भलाई-करेगा	जो	वह	भलाई	तो-होगी	हमारे-साथ	जाए	यदि-	और-होगा
	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H3190</a>		<a href="#">H1931</a>		<a href="#">H1961</a>		<a href="#">H3212</a>		<a href="#">H1961</a>
								לָךְ:	וְהַטַּבְּנוּ	
								तेरे-साथ	तो-भलाई-करेंगे	
									<a href="#">H3190</a>	

यदि तुम हम लोगों के साथ आते हो तो यहोवा जो कुछ अच्छी चीज़ें देगा उसमें तुम्हारे साथ हम हिस्सा बटाएंगे।”

נִסַּע	יְהוָה	בְּרִית-	וְאֶרֶז	יָמִים	שְׁלֹשֶׁת	דַּרְךְ	יְהוָה	מִתָּר	וַיִּסְעוּ
कूच-करता-था	यहोवा	वाचा-की-	और-सदूक	दिन	तीन	मार्ग	यहोवा-के	से-पर्वत	और-कूच-किए
<a href="#">H5265</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H1285</a>	<a href="#">H0727</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H7969</a>	<a href="#">H1870</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H2022</a>	<a href="#">H5265</a>
			מְנוּחָה:	לָהֶם	לְחֹר	יָמִים	שְׁלֹשֶׁת	דַּרְךְ	לְפָנֵיהֶם
			विश्राम-स्थान	उनके-लिए	खोजने-को	दिन	तीन	मार्ग	उनके-आगे
			<a href="#">H4496</a>		<a href="#">H8446</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H7969</a>	<a href="#">H1870</a>	<a href="#">H6440</a>

इसलिए होबाब मान गया और उन्होंने यहोवा के पर्वत से यात्रा आरम्भ की। याजकों ने यहोवा के साक्षीपत्र के पवित्र सन्दूक को लिया और लोगों के आगे चले। वे डेरा डालने के स्थान की खोज में तीन दिन तक पवित्र सन्दूक ढोते रहे।

ס:	הַמִּזְחָה:	מִן-	בְּנִסְעָם	יּוֹמָם	עָלִיָּהֶם	יְהוָה	וַעֲנֹן
—	छावनी-से	से-	जब-कूच-करते-थे-वे	दिन-को	उन-पर	यहोवा-का	और-बादल
	<a href="#">H4264</a>		<a href="#">H5265</a>	<a href="#">H3119</a>		<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H6051</a>

यहोवा का बादल हर एक दिन उनके ऊपर था और हर एक सुबह जब वे अपने डेरे को छोड़ते थे तो उनको रास्ता दिखाने के लिए बादल वहाँ रहता था।

35

אִי־יָבִיחַ तेरे-शत्रु <a href="#">H0341</a>	וַיִּפְצְלוּ और-तितर-बितर-हों	יְהוָה यहोवा <a href="#">H3068</a>	קוּמָה उठ	מֹשֶׁה मूसा <a href="#">H4872</a>	וַיֹּאמֶר तो-बोलता-था <a href="#">H0559</a>	הָאָרֶן संदूक <a href="#">H0727</a>	בְּנֹסַע जब-कूच-करता-था <a href="#">H5265</a>	וַיְהִי और-होता-था <a href="#">H1961</a>
--	----------------------------------	--	--------------	---	---	---	---	--

מִפְּנֵי: तेरे-सामने-से <a href="#">H6440</a>	מִשְׁנֵאֵי तुझसे-बैर-रखने-वाले <a href="#">H8130</a>	וַיִּגְסוּ और-भागें <a href="#">H5127</a>
---	--	---

जब लोग पवित्र सन्दूक के साथ यात्रा आरम्भ करते थे और पवित्र सन्दक डेरे से बाहर ले जाया जाता था, मूसा सदा कहता था, “यहोवा, उठ! तेरे शत्रु सभी दिशाओं में भागें। जो लोग तेरे विरुद्ध हो तेरे सामने से भागें।”

36

ס:	יִשְׂרָאֵל:	אַלְפֵי	רַבְבוֹת	יְהוָה	שׁוּבָה	יֹאמֶר	וּבְנֵהָ
—	इस्राएल-के	हज़ारों	लाखों	यहोवा	लौट	बोलता-था	और-जब-ठहरता
	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H0505</a>	<a href="#">H7233</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H5117</a>

और जब पवित्र सन्दूक अपनी जगह पर रखा जाता था तब मूसा सदा यह कहता था, “यहोवा, वापस आ, इस्राएल के लाखों लोगों के पास।”